



निवासियों को सिटी के वर्चुअल रिवरवॉक एरिया अर्बन डिज़ाइन मास्टर प्लान के सार्वजनिक जानकारी सेशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया

ब्रैम्पटन, ओनटारियो (8 मार्च, 2021) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, रिवरवॉक (Riverwalk) प्रोजेक्ट को कार्यरूप देने में, आगे कदम बढ़ा रही है। निवासियों को बुधवार, 17 मार्च, 2021 को, शाम 6:30 से रात 8 बजे तक, सिटी के दूसरे रिवरवॉक एरिया अर्बन डिज़ाइन मास्टर प्लान (Riverwalk Area Urban Design Master Plan) के सार्वजनिक जानकारी सेशन (Public Information Session) में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। निवासियों के पास, परिवर्तनशील रिवरवॉक प्रोजेक्ट के बारे में और जानने व डिज़ाइन के डायरेक्शंस और धारणाओं के बारे में अपने सुझाव साझे करने का अवसर होगा।

सार्वजनिक जानकारी सेशन ऑनलाइन होगा। इसके लिए मीटिंग के दिन, लाइव जाने के लिए जुड़ने हेतु [यहां \(here\)](#) एक लिंक दिया जाएगा।

प्रोजेक्ट की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी, यहां www.brampton.ca/riverwalk प्राप्त की जा सकती है।

रिवरवॉक प्रोजेक्ट, ब्रैम्पटन के डाउनटाउन को दुबारा शक्तिशाली बनाने और इसे स्थिर, स्वस्थ व लचीला बनाने में मदद करेगा।

रिवरवॉक का मुख्य उद्देश्य, डाउनटाउन ब्रैम्पटन में बाढ़ के जोखिम को दूर करने के लिए, नवीन और लंबी-अवधि का समाधान तैयार करके, शहरी वृद्धि और विकास पैदा करना, निवेश को आकर्षित करना और क्षेत्र में पब्लिक जगह का विस्तार और सुधार करना है।

संक्षेप तथ्य

- रिवरवॉक एरिया अर्बन डिज़ाइन मास्टर प्लान, एक खुली जगह (ओपन स्पेस) का मास्टर प्लान है, जो बाढ़ संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर के सौंदर्यात्मक ट्रीटमेंट, वैली के साथ-साथ खुली जगह संबंधी सिस्टम, सक्रिय ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के एकीकरण, वातावरण और आर्थिक स्थिरता, सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों और प्रोग्रामिंग, रिवरवॉक के लिए संपूर्ण दृष्टिकोण को कार्यरूप देने के लिए धारणाएं विकसित करेगा।
- रिवरवॉक, यह सुनिश्चित करेगा कि डाउनटाउन ब्रैम्पटन, यहां रहने और आने वाले, सभी लोगों के लिए स्थिर, स्वस्थ, लचीली और आनंद लेने वाली जगह है।
- रिवरवॉक प्रोजेक्ट न केवल डाउनटाउन ब्रैम्पटन में बाढ़ के जोखिम को कम करेगा, बल्कि यह शहरी वृद्धि और विकास पैदा करके और क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करके, अवसरों का शहर बनने की हमारी प्राथमिकता को कार्यरूप देने में, हमारी मदद करने में मुख्य भूमिका निभाएगा।
- रिवरवॉक, दुबारा बनाए गए एटोबीको क्रीक (Etobicoke Creek) से लेकर क्षेत्र तक का विस्तार करता है। यह क्षेत्र, एटोबीको क्रीक वैली कॉरिडोर और ट्रेल सिस्टम से जुड़ी, पब्लिक जगहों और पार्कों से घिरा हुआ है।
- इससे डाउनटाउन में, 23,000 से अधिक नौकरियां पैदा करते हुए और जी.डी.पी. (GDP) पर 1.4 बिलियन डॉलर का प्रभाव डालते हुए, 3.6 मिलियन वर्ग फुट की रिहायशी, कमर्शियल और रिटेल जगह खुलने की संभावना है।
- नवंबर 2020 में, कैंनेडा सरकार (Government of Canada) ने घोषणा की थी कि सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को, ई.ए. (EA) में प्रस्तावित, बाढ़ से सुरक्षा के कामों के लिए, डिजास्टर मिटीगेशन एंड एडाप्टेशन फंड (Disaster Mitigation and Adaptation



Fund) के अंतर्गत, 38.8 मिलियन डॉलर मिलेंगे। इसके अलावा, काउंसिल ने बाढ़ से सुरक्षा के कामों के लिए, विस्तृत डिज़ाइन के लिए, 2021 कैपिटल बजट (2021 Capital Budget) के द्वारा, 5.88 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है।

-30-

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca